


Press release


इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय अलीगंज के संयुक्त तत्ववधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन

Sunday, May 31, 2020



आये दिन होने वाले साइबर अपराधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से इंडीयन सोसाइटी ओफ़ क्रिमिनोलोजी, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विवि क्षेत्रीय केन्द्र लखनऊ तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला महाविद्यालय

अलीगंज के संयुक्त तत्ववधान में एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद एस टी एफ के पुलिस अधीक्षक श्री विशाल विक्रम सिंह ने साइबर अपराधों की विस्तार से जानकारी देते हुये कहा कि अधिकांश लोगों झूठे प्रलोभनों में आकर आसानी से वित्तीय साइबर अपराधों का शिकार बन जाते है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधी शांतिर होते हैं तथा अपनी बातों में उलझाकर बैंक डिटेल ओ टी पी आदि की जानकारी ले लेते हैं उन्होंने आगाह किया कि बिना सम्यक् जानकारी के अपनी डिटेल शेयर न करें उन्होंने कई केस स्टडी के माध्यम से अपनी बात समझाई। उन्होंने कहा कि यदि कोई इसका शिकार बन जाता है तो तत्काल इसकी सूचना अपने बैंक तथा सम्बंधित थाने को दें। विशेष वक्ता के रूप साइबर सिक््योरिटी उत्तर प्रदेश पुलिस के सलाहकार श्री राहुल मिश्रा ने कहा कि अनेक लोग नकली आइ डी बनाकर मित्र अनुरोध भेजते हैं लेकिन बिना जाँच पड़ताल के मित्र अनुरोध स्वीकार न करें। महिलाएँ भी यदि सम्भव हो तो गैर ज़रूरी फ़ोटो आदि न डालें। उन्होंने कहा कि तमाम तरह की प्रतियोगिताएँ आदि फेसबुक पर होती हैं उसकी विश्वसनीयता की परख करके ही हिस्सा लें अथवा ब्लैकमेल का शिकार हो सकते हैं।



वेबिनार के संयोजक इंडियन सोसाइटी ओफ़ क्रिमिनोलोजि के उपाध्यक्ष तथा हरिसिंह गौर विवि में समाजशास्त्र तथा समाज कार्य विभाग के अध्यक्ष ने अतिथियों का स्वागत किया तथा वेबिनार की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। सहायक समन्वयक इगनु के सहायक निदेशक कीर्ति विक्रम सिंह ने वेबिनार के संचलन में सहयोग किया। मोडरेटोर के रूप में मौजूद डाक्टर जय प्रकाश वर्मा ने विषय की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला। सलाहकार के रूप में इगनु की क्षेत्रीय निदेशक डाक्टर मनोरमा सिंह नेताजी सुभाष चंद्र बोस राजकीय महिला पी जी कालेज की प्राचार्य प्रोफेसर अनुराधा तिवारी तथा आइ एस सी तिरनवेलि के माधव सोम सुंदरम मौजूद रहे।

Anand Panchal and 42 more 50 12:32 You



Dr. Kirti Vikram Singh

rc lucknow

JAI PRAKASH

Anuradha Tiwari

Professor P. Madhava So...

National Webinar on 'Cyber Security: Essentials ... ^

Turn on captions Present now

This image shows a Zoom meeting interface. The main video feed displays a man with a mustache wearing a light blue polo shirt. The top right corner shows the meeting title 'National Webinar on 'Cyber Security: Essentials ...', the time '12:32', and the user 'You'. A list of participants is visible on the right side, including Dr. Kirti Vikram Singh, rc lucknow, JAI PRAKASH, Anuradha Tiwari, and Professor P. Madhava So... The bottom toolbar contains icons for mute, video, and chat, along with options for 'Turn on captions' and 'Present now'.